

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को दस फैसिलिटीज के लिए कंप्लीमेंटरी रिक हैन्सन फाउंडेशन एक्सेसिबिलिटी सर्टिफिकेशन रेटिंग मिल रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (1 अक्टूबर, 2020) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के दस स्थान, रिक हैन्सन फाउंडेशन एक्सेसिबिलिटी सर्टिफिकेशन™ (आर.एच.एफ.ए.सी.) (Rick Hansen Foundation Accessibility Certification™) (RHFAC) प्रोग्राम के द्वारा बिल्डिंगों की सुलभता की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए चुने गए हैं। ये कंप्लीमेंटरी आर.एच.एफ.ए.सी. (RHFAC) रेटिंग्स मिलने से, सिटी चुनी गई बिल्डिंगों के सुलभता स्तर को बेहतर ढंग से समझ पाएगी और भविष्य में सुलभता में सुधार करने के तरीकों की पहचान कर पाएगी।

चुनी गई दस फैसिलिटीज में शामिल हैं:

- लेस्टर बी. पियर्सन थिएटर (Lester B. Pearson Theatre)
- द रोज थिएटर (The Rose Theatre)
- पी.ओ.ए. कोर्टहाउस (POA Courthouse)
- गोर मेडोज कम्युनिटी सेंटर एंड लाइब्रेरी (Gore Meadows Community Centre and Library)
- कैसी कैम्पबेल कम्युनिटी सेंटर (Cassie Campbell Community Centre)
- सिटी हॉल (City Hall)
- बी.एफ.ई.एस. अपार्ट्स एंड मेंटेनेंस फैसिलिटी (BFES Apparatus and Maintenance Facility)
- ब्रैम्पटन गेटवे टर्मिनल (Brampton Gateway Terminal)
- ब्रैमली ट्रांज़िट टर्मिनल (Bramalea Transit Terminal)
- स्प्रिंगडेल लाइब्रेरी (Springdale Library)

रिक हैन्सन फाउंडेशन (Rick Hansen Foundation), पूरे ओनटैरियो में चुनिंदा म्युनिसिपल्टीज में 250 कंप्लीमेंटरी रेटिंग्स का संचालन करेगी। इसकी फंडिंग ओनटैरियो सरकार (Government of Ontario) द्वारा की गई है। आर.एच.एफ.ए.सी. प्रोग्राम, कारोबारों व पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए आर.एच.एफ.ए.सी. कार्यप्रणाली का प्रयोग करते हुए, सुलभता रेटिंग्स प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों का प्रयोग करता है, ताकि प्रॉपर्टी मैनेजर्स और मालिकों को, पहचानी गई रुकावटों को दूर करने तथा अपने स्थानों व समुदायों को अधिक सुलभ बनाने के तरीके निर्धारित करने में मदद मिल पाए।

इस समय प्रोग्राम के दूसरे राउंड के लिए, कंप्लीमेंटरी आर.एच.एफ.ए.सी. रेटिंग्स के लिए आवेदन, 30 नवंबर, 2020 तक स्वीकार किए जा रहे हैं। [www.rickhansen.com/ontarioratings](http://www.rickhansen.com/ontarioratings) पर और जानें तथा आवेदन करें।

**संक्षिप्त तथ्य**

- आर.एच.एफ.ए.सी. रेटिंग्स शुरू करने का समय इस वर्ष के अंत तक के लिए तय किया गया है। इनके पतझड़ 2021 तक पूरे होने की संभावना है।
- जिन संगठनों को आर.एच.एफ.ए.सी. प्रोग्राम द्वारा रेटिंग दी जाएगी, उन्हें गोपनीय स्कोरकार्ड रेटिंग और सफलता के मुख्य क्षेत्रों और उनके स्थानों के लिए सुधार की रिपोर्ट मिलेगी।
- प्रोग्राम के दो सर्टिफिकेशन स्तर हैं: आर.एच.एफ. एक्सेसिबिलिटी सर्टिफाइड (RHF Accessibility Certified) और आर.एच.एफ. एक्सेसिबिलिटी सर्टिफाइड गोल्ड (RHF Accessibility Certified Gold)।
- सिटी ऑफ ब्रैम्पटन और इसकी [एक्सेसिबिलिटी एडवाइजरी कमेटी \(Accessibility Advisory Committee\)](#) यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित हैं कि हर उम्र और योग्यताओं वाले लोगों को, ब्रैम्पटन में रहने, खेलने, घूमने और निवेश करने के समान अवसर मिलते हैं।

**हवाले**

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन एक मोजैक है। हम विकलांगों के लिए बाधाएं दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि हमारे विविध समुदाय में हर कोई पूरी तरह से शामिल हो पाए। मैं सिटी की दस चुनी गई फैसिलिटीज के लिए आर.एच.एफ.ए.सी. रेटिंग्स प्राप्त करने के अवसर का स्वागत करता हूं। मुझे अभी भी याद है कि कैसे फाउंडेशन के सर्टिफिकेशन के बारे में पहली बार पता चला था, जब ओटावा में रिक से मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने सिटी की ओर से आवेदन करने की सलाह दी थी। हमारे स्थानों के सुलभता स्तरों के बारे में बेहतर ढंग से समझने के लिए, हम ऐसा शहर बनाने की ओर काम जारी रख सकते हैं, जो सभी के लिए अधिक भागीदारी वाला और सुलभ हो।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“एक्सेसिबिलिटी एडवाइजरी कमेटी में काउंसिल का प्रतिनिधि होने के नाते, यह सुनकर मुझे खुशी हो रही है हमारी सिटी के दस स्थानों को कंप्लीमेंटरी आर.एच.एफ.ए.सी. रेटिंग्स मिलेंगी। रुकावटों को दूर करने से, हमारा शहर हर किसी के लिए सुलभ बन जाएगा। हमारी बिल्डिंगों के सुलभता स्तरों के समझकर, हम प्रांतीय ए.ओ.डी.ए. रैगुलेशंस के मुताबिक और इससे भी बढ़कर, सूचित सुलभता सुधार करने में सक्षम होंगे, ताकि हमारे निवासी, सिटी की फैसिलिटीज का आनंद ले सकें।”

- पैट फोर्टिनी (Pat Fortini), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8, एक्सेसिबिलिटी एडवाइजरी कमेटी काउंसिल मेम्बर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन; मेम्बर, रीजन ऑफ पील एक्सेसिबिलिटी एडवाइजरी कमेटी

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में, हम ऐसा मोजैक सिटी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हर क्षमता वाले लोगों को सेवा दे। हमारे दस चुनिंदा स्थानों के लिए, आर.एच.एफ.ए.सी. रेटिंग्स मिलने से, हम इस बारे में अधिक दृष्टिकोण प्राप्त करेंगे कि हमारी फैसिलिटीज को, सभी ब्रैम्पटन निवासियों के लिए कैसे अधिक सुलभ बनाया जाए और उसके अनुसार भविष्य में सुलभता के लिए सुधार करने की स्थिति में कैसे लाया जाए।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)